

I/14901/2020

उत्तर पश्चिम रेलवेप्रधान कार्यालय,  
जयपुर

दिनांक:03.09.2020

सं. जी / 379 / 15 / 2 भाग- 4

सभी विभागाध्यक्ष, प्र. का., उ.प.रे. जयपुर।

विषय:- हिंदी सप्ताह -2020 का आयोजन।

-----

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यालय पर दिनांक 14.9.2020 से 21.9.2020 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। हिंदी सप्ताह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रम/ प्रतियोगिताएं ऑन लाइन तरीके से आयोजित किए जाएंगे। हिंदी प्रतियोगिताओं में सभी विभागों के कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

क्र.सं.	कार्यक्रम	दिनांक	समय
1.	हिंदी सप्ताह का शुभारंभ	14.09.2020	12.00 बजे
1.	राजभाषा ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन।	15.09.2020	12.00 बजे
2.	हिंदी प्रयोग-प्रसार संबंधी निरीक्षण।	16.09.2020	--
3.	निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।	17.09.2020	--
4.	हिंदी कार्यशाला आयोजन।	18.09.2020	12.00 बजे

**1. हिंदी सप्ताह का शुभारंभ**

इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री व महाप्रबंधक महोदय के संदेश एवं हिंदी सप्ताह संबंधी बैनर का प्रदर्शन।

**2. दिनांक 15.09.2020 को राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन**

यह प्रतियोगिता गूगल फार्म के माध्यम से ऑन लाइन आयोजित की जाएगी जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसका लिंक सभी प्रतियोगियों को यथासमय भेज दिया जाएगा।

**3. हिंदी संबंधी निरीक्षण**

यह निरीक्षण ई-ऑफिस के माध्यम से संबंधित विभागों से प्राप्त फाइलों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से पत्र जारी किया जाएगा।

**4. हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन**

इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को दो विषय दिए जाएंगे जिसमें से एक विषय पर निबंध (शब्द सीमा 2000) लिखना होगा। लिखित निबंध दिनांक 17.09.2020 को 17.00 बजे तक PDF फाइल में राजभाषा विभाग के ई-मेल [srba@nwr.railnet.gov.in](mailto:srba@nwr.railnet.gov.in) पर भिजवाने होंगे। हिंदी निबंध के विषय निम्नानुसार रहेगे:-

- (1) लोक प्रशासन में नौकरशाह की भूमिका।
- (2) भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी सशक्तिकरण।

I/14901/2020

**5.हिंदी कार्यशाला का आयोजन**

यह कार्यशाला 'गूगल मीट' के माध्यम से ऑन लाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को राजभाषा संबंधी नीति/नियमों की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में प्रत्येक विभाग से कम से कम दो प्रतिभागी भाग ले सकेंगे।

हिंदी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

अनुरोध है कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का नाम, पदनाम, विभाग, मोबाइल नं. व ई-मेल आईडी दिनांक 09.09.2020 तक राजभाषा विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि संबंधित प्रतिभागियों को यथासमय ऑन लाइन लिंक उपलब्ध कराया जा सके। इस अवधि के दौरान सभी प्रतिभागी झूठी पर माने जाएंगे।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(गुरुदयाल सिंह)  
राजभाषा अधिकारी  
कृते महाप्रबंधक/ राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1. मुराधि एवं प्रमुख वित्त सलाहकार, महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. वरि. जनसंपर्क अधिकारी, उ.प.रे, जयपुर
3. महासचिव- एन.डब्ल्यू.आर.ई.यू एवं यू.पी.आर.एम.एस.,
4. महासचिव-ए.आई.एस.सी/एस.टी.आर.ई.एसो. एवं ओ.बी.सी.एसो.उ.प.रे., जयपुर.